

प्रतिलिपि के लिए आवेदन
 तारीख
 Date of application for
 the copy.

Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	requisite stamps and folios.	was ready for delivery.	copy to the applicant.
9-10-99	9-10-99	6-11-99	8-11-99

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिम्डेगा ।

आदेश पत्रक

१. देखें अभिलेखा हस्तक 1941 का नियम 129१

आदेश पत्रक- दिनांक ----- से ----- तक

जिला- गुमला केस नं० एस.ए.आर. 41/आर-15-71-72

सुलेमान डाडिया

बनाम

जगदीश प्रसाद अग्रवाल

देखा की
 संख्या एट
 तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
 कारवाई के लिए टिप्पणी
 तारीख सहित

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिम्डेगा

सुलेमान डाडिया

बनाम


जगदीश प्रसाद अग्रवाल

एस.ए.आर. 41/आर-15-71-72

आदेश

9/10/99

यह वाद एस.ए.आर. अपील सं० 41/आर-15/71-72



7

जगदीश प्रसाद अग्रवाल बनाम सुलेमान ढाड़िया विद्वान
 अपर समाहर्ता गुमला के न्यायालय से धारा 71 § 40 §
 के अन्तर्गत निष्पादनार्थ रिमाण्ड स्वरूप इस न्यायालय को
 प्राप्त हुआ है। यह वाद मौजा सलेहेगा धाना सिम्हेगा के
 खाता नं० -26 के प्लॉट सं०-607, 608 एवं 609 से संबंधित
 है। यह खाता जेठू ढाड़िया के नाम से धातियान में अंकित
 है। उसका बेटा सुलेमान ढाड़िया इस वाद का प्रथम पक्ष है,
 उसी के नाम से रसीद कटती है। द्वितीय पक्ष के जगदीश
 प्रसाद अग्रवाल ने प्लॉट सं०-607 के कुल रकबा 2.17 एकड़ में
 से 1.43 एकड़ और प्लॉट सं०-608 का 0.02 एकड़ तथा
 प्लॉट सं०-609 का सम्पूर्ण 0.55 एकड़ कुल 2.00 एकड़ जमीन
 अपने कब्जा में रखे हुए है।

अभिप्रेत यह है कि श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने
 छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम को धारा 46 के
 अन्तर्गत में एक आदिवासी को जमीन को अवैध रूप से दब्जल
 कर लिया है, इसलिए धारा 71 § 40 छोटा नागपुर कस्तकारी
 अधिनियम के अन्तर्गत यह भूमि पुनः आदिवासी को वापस
 दिक्दा दिया जाय। सुलेमान ढाड़िया ने इस प्रक्रिया के प्रथम
 चरण में लिखा कर दे दिया है कि अपनी राजी आत्मी से
 उपरोक्त जमीन को जगदीश प्रसाद अग्रवाल को दिनांक 2.1.1956
 को 1500=00 रुपये में सादा दस्तावेज द्वारा बेच दिया। उसका

Handwritten signature
 6/11/59



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

उसका यह भी कथन था कि उपरोक्त जमीनों पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा गत 30 वर्षों से चला आ रहा है। इसी के उसने सिर्फ बिक्रीनामा लिखा कर नियमित कर दिया। उसने उपरोक्त जमीनों को लेने से इन्कार कर दिया। प्रथम पक्ष ने लिखित ध्यान में एवं द्वितीय पक्ष ने भी लिखित ध्यान में यह कहा है कि उपरोक्त जमीनों की बिक्री हुई थी दूसरी दलील यह दी गई कि दस्तावेज 1956 में लिखा गया लेकिन उक्त जमीन को 30 वर्षों से कब्जा में चला आ रहा है इसके सबूत में प्रथम पक्ष की स्वीरोक्ति पत्र भी दी गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रार्थना की गई कि उपरोक्त जमीन पर उन्होंने काफी रकम खर्च करके पक्की दीवार से घेरा किया पक्का कुंआ और घर बनाया है और जमीन को सुधार कर बहुमूल्य लकड़ी लगाया है, इसे न हटाया जाय, बल्कि मुनासिब दरजाना देने का आदेश दिया जाय। मैंने दिनांक 29.6.99 को स्थल का निरीक्षण किया तथा यह पाया कि वास्तव में विवादाग्रस्त भूमि को द्वितीय पक्ष द्वारा पक्की दीवार से घेरा बन्दी की गई है। उसमें पक्का कुंआ और घर बनाया गया है


21/11/99



है तथा जमीन को सुधार कर बड़े-बड़े वृक्षा लगाए गए हैं।
सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्षा ने भी मुआवजा भुगतान करने की
बात कही है। इसे सहायक सरकारी अधिकारिता ने भी उचित
मुआवजा निर्धारित करने की सहमति जतायी है।

इस प्रकार सभी पक्षों को सुनने, प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन
करने एवं स्थानीय निरीक्षण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा
हूँ कि वास्तव में यह जमीन वर्ष 1956 के काफी पूर्व से ही
जमीन विपक्षी के दखल कब्जा में है तथा विपक्षी द्वारा
द्विवादाग्रस्त भूमि पर पक्का दीवार, पक्का कुंआ एवं धार
बनाया गया है तथा इस जमीन पर काफी खर्च कर जमीन
सुधार कर बगोचा लगाया गया है ऐसी परिस्थिति में
मुनासिब मुआवजा भुगतान करना ही श्रेयस्कर होगा। कुल
2.00 एकड़ जमीन का मुआवजा 25,000=00 रुपये प्रति
एकड़ की दर से कुल 50,000=00 (पचास हजार) रुपये
निर्धारित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि
विपक्षी आदेश की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रथम पक्षा
को पूर्ण राशि भुगतान करें।

du
6/11/59



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

अभिलेख दिनांक 1.8.99 को उपस्थापित करें ।

लेखापित *sd/ M.P. Yadav*
30/6/99
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 तिमडेगा

sd/ M.P. Yadav
30/6/99
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 तिमडेगा

2.8.99

उभय पक्षों को ओर से हाजिरा पड़ी है । आवेदक पारकल शाहूया एवं विपक्षी जगदीश प्रसाद अग्रवाल न्यायालय में उपस्थित हैं । आवेदक पारकल शाहूया के सहयोग सरकार के अधिवक्ता श्री इमानुएल इंग्लैंड अधिवक्ता के पहचान पर जगदीश, प्रसाद अग्रवाल विपक्षी द्वारा न्यायालय में भी 0 50000=00 {पचास हजार } रुपया नगद भुगतान किया गया । न्यायक सरकारी अधिवक्ता का हस्ताक्षर अभिलेखाब्द है । प्लॉट नं० 607 के कुल क्षेत्रफल 3.17 एकड़ में से 1.43 एकड़ प्लॉट नं० 608 का क्षेत्रफल 0.02 एकड़ तथा प्लॉट नं० 609 का क्षेत्रफल 0.55 एकड़ कुल 3.00 {तीन एकड़} क्षेत्रफल जगदीश प्रसाद अग्रवाल के नाम पर जमा किया एवं 35 लक्ष 50 हजार रुपया

50000/- रुपया नगद पाया
 EO /- पारकल शाहूया 2.8.99
 Identified Paskal Kharfa who himself appeared in Court and Received full compensation Rs.50000/- money fifty thousand only and his appended his signature.
sd/-illegible
 A.G.P. 2.8.99

sd/ M.P. Yadav
30/6/99
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 तिमडेगा

1999 के अक्टूबर 30 तक
 1999 के अक्टूबर 30 तक

Serials existing the number of and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	प्रमाणित तयार हो Date on which the copy was ready for delivery.	तारीख Date of making over copy to the applicant
54-1002	05-06-2002	05-06-2002	06-06-2002

श्री / सहाय निरीक्षक का कार्यालय साहिब
साहिब साहिब

आवेदन क्र. 117

श्री ए.एस.जी. शा. सं. 117 शा. निदेशन क्र. 24/02

श्री ए.एस.जी. शा. सं. 117 शा. निदेशन क्र. 24/02

117-72

117-72

श्री ए.एस.जी. शा. सं. 117 शा. निदेशन क्र. 24/02



संमान राशियां कर	58-006	275
शुल्क राशि राशियां	607-217	275
अह राशि राशियां	608-002	
अह राशि राशियां	609-055	
	738-009	

007-217-302
608-002
609-055
738-009
1052

Number for	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की तिथि तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिनिधि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक का प्रमाण पत्र तारीख Date of making over copy to the applicant.
2002	12.05.2002	25.06.2002	25.06.2002	26.06.2002

इसके लिए अनिश्चित बालिका के आर 71 A कि आदेश है। इसका आवेदन 28 दिनांक पर तैयार किया गया है। आर 71 A के आदेश के तहत बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है।

बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है।

बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है। बालिका को 50 लाख का आदेश दिया गया है।

वकील

दिनांक को प्रेषित की जायेगी
 मध्यम प्रतिलिपि का प्रेषण
 तिथि
 Date fixed for notifying
 the requisite number of
 stamps and folios.

प्रतिलिपि तैयार की जायेगी
 तिथि को तैयार
 Date of delivery of the
 requisite stamps and
 folios.

तैयार, प्रेषित की जायेगी
 मध्यम प्रतिलिपि का प्रेषण
 तिथि
 Date on which the copy
 was ready for delivery.

आवेदन का प्रेषण
 तिथि
 Date of making over the
 copy to the applicant.

05/06/2012

05/06/2012

06/06/2012

प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवेदन किया गया है।
 आवेदनकर्ता को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक

दिनांक
 तिथि
 13/12/99

आवेदनकर्ता को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक

आवेदनकर्ता को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक

आवेदनकर्ता को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक
 प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए आवश्यक

INDIA POST OFFICE
TWENTY-FIVE PAISE

आवेदक की तिथि Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टम्प और फोलियो देने की तिथि Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि इसे के लिए प्रतिनिधि देया गी Date on which the copy was ready for delivery.	प्रत्येक को प्रेषित देने की तिथि Date of making over the copy to the applicant.
20.06.2002	20.06.2002	04.06.2002	26.06.2002

आवेदक को सूचित किया जाता है कि
 आपका आवेदन संख्या निरीक्षण के माध्यम
 प्राप्त है। आप इच्छित तारीख प्रतिलिपि
 प्राप्त है। जो आगमन के अनुसार है।
 आवेदन की कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है।
 आवेदन को आवेदन कार्यालय को
 भेजा जाएगा जिसे की प्रतिलिपि
 दिनांक 27.06.2002 को उपस्थित रहे

दिनांक
 10.1.2002
 अधिकारी

आवेदन उपस्थित। अतिरिक्त मांग जात
 के साथ उपस्थित है उपस्थित है।
 आवेदन को आवेदन कार्यालय को
 भेजा जाएगा जिसे की प्रतिलिपि

दिनांक

20.06.2002



आवेदन पत्र की प्रतिलिपि को सौंपित करने की तिथि Date fixed for supplying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	प्रतिलिपि तैयार की Date on which the copy was ready for delivery.	समय Date of making over the copy to the applicant.
20.06.2002	05.06.2002	05.06.2002	06.06.2002

हल्का कारिचारी / अंजल गिरी वरु

ने आवेदन पत्र प्रति पट पर २०. आर वार
का ५५५ इत ५५५ चिकारी व. ग्यासाल के प्रेषण
के आधार पर प्रति प्रति ५५ आर वार अंजल गिरी
दण्ड चिकारी ग्यासाल में ५०, ५५५ इत
पत्र पर पत्रार सौंपा गिरी वरु पत्र
पत्रार प्रेषण है जो ग्यासाल के प्रेषण
के आधार पर ही प्रेषण पत्र प्रेषण
पत्रार है जो अंजल गिरी वरु है

अतः हल्का कारिचारी अंजल गिरी वरु

गिरी वरु के अंजल गिरी वरु के आधार
पर ५५ ग्यासाल के प्रेषण के आधार
पर अंजल गिरी वरु पत्र अंजल
गिरी वरु के अंजल गिरी वरु पत्र

अंजल गिरी वरु के अंजल गिरी वरु	प्रति प्रति	प्रति प्रति
२६	६०५	१.५३
	६०८	०.०२
	६०९	०.५५
		२.००

अंजल गिरी वरु के अंजल गिरी वरु

भारत
TWENTY-FIVE PAISE

टाफ और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की तिथि तिथि Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित टाफ और फोलियो देने की तिथि Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि इसे के लिए प्रेषित किया था Date on which the copy was ready for delivery.	अपेक्षित की तिथि Date of issue.
20-04-2002	05-06-2002	05-06-2002	06-06

अ. 5 गूर से कलकत्ता प्रान्त में
 गरीब आबादी के लिए 25 पैसे के टाफ
 20 अप्रैल 2002 को जारी किया गया
 उक्त टाफ का प्रसारण प्रान्त के विभिन्न जिलों
 में उपरोक्त तारीख से तबत तक प्रान्त
 के माध्यम से वास्तव में किया जाय आबादी
 को वास्तव में देना ही होगा।

नकल
 5/6/02
 मिलन

आ. 5 गूर प्रान्त
 5/6/02
 13000 (Advocate)
 7/2-2000

TWENTY FIVE PAISE

आवेदन की तारीख Date filed for notifying the requisite number of stamps and folios.	आवेदन की तारीख Date filed for notifying the requisite number of stamps and folios.	आवेदन की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि तक के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदन को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
01-2-2002	20-04-2002	05-06-2002	05-06-2002	06-06-2002

आदेश फलक
 दिनांक 20 अप्रैल 1941 काजिमा 1297
 आदेश फलक का नं. 177 R27/99-2002
 मिला गुजरात वार संख्या 177 R27/99-2002
 केस का प्रकार कास्टेन संरक्षित

की तारीख
के तारीख

आदेश का पंजीकृत का संख्या

आदेश का नं. 177 R27/99-2002
के तारीख का संख्या 177 R27/99-2002

99 श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल शांति विभागा
 में 20 अप्रैल 1941 काजिमा 1297 (प्रतिलिपि)
 आदेश के नं. 177 R27/99-2002 के तारीख
 संरक्षित केस का प्रकार कास्टेन संरक्षित है।
अपील का विवरण

आदेश	संख्या	नं. 177 R27/99-2002	संख्या
विभागा	26	603	143
		608	0102
		609	0155
		3	2:00 रु

TWENTY FIVE PAISE

अर्थ और फोलियो की अपेक्षित संख्या स्थिति कामे की निम्नित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
20.04.2002	05.06.2002	05.06.2002	06.06.2002

पश्चिम बंगाल सरकार
 असाधारण प्रथम अमान्यता के
 लिए प्रार्थना कर दिया जा रहा है
 कि इनका न्याय हो
 पश्चिम बंगाल
 राज्य सरकार
 कोर्ट में
 अमान्यता प्रथम
 रजिस्ट्रार के
 पास भेजा जाता
 है कि यह न्याय
 हो सके
 कि यह न्याय हो
 कि यह न्याय हो
 कि यह न्याय हो

२०१
 अमान्यता
 अमान्यता